



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2013-आश्विन 26, शके 1935

### भाग 3 (1)

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. मां कन्स्ट्रक्शन (Maa Construction) 62, एडवोकेट कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल जो कि एक पंजीकृत फर्म है. पंजीयन क्र. 01/01/01/000397/12 से 2011-12, दिनांक 05 जनवरी, 2012 जिसमें—

1. श्री राजेश ठाकुर पुत्र चेलाराम ठाकुर, निवासी 132, दीपक सोसायटी, चूना-भट्टी, भोपाल.
2. श्री तरुण ठाकुर पुत्र श्री धरमेश ठाकुर, निवासी 132, दीपक सोसायटी, चूना-भट्टी, भोपाल.
3. श्री सुरेन्द्र जुनेजा पुत्र श्री किशनलाल जुनेजा, निवासी 62, एडवोकेट कॉलोनी, ईदगाह, भोपाल.
4. श्री नितिन बब्बर पुत्र श्री राजेन्द्र बब्बर, निवासी राजदेव कॉलोनी, बैरसिया रोड, भोपाल.

भागीदार थे, जो दिनांक 25 मई, 2013 से भंग (Dissolve) हो गई है.

अतः यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित भंग फर्म के नाम से किसी भी कार्य व लेन-देन में लिए फर्म व भंग फर्म के भागीदार जिम्मेदार व उत्तरदायी नहीं होंगे.

1. श्री राजेश ठाकुर
2. श्री तरुण ठाकुर
3. श्री सुरेन्द्र जुनेजा
4. श्री नितिन बब्बर

(380-बी.)

#### सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अनुसार फर्म-मेसर्स त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कम्पनी जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00090/08, पंजीयन दिनांक 14 अगस्त, 2008 है, में दो भागीदार श्री राजेश शर्मा आत्मज श्री पी. एन. शर्मा एवं श्री मोहन अवस्थी आत्मज स्व. श्री जी. एल. अवस्थी, में से श्री मोहन अवस्थी, फर्म अलग हो गये हैं तथा उसी दिनांक 30 अगस्त, 2013 को श्रीमती किशोरी देवी शर्मा पत्नी श्री प्रेमनारायण शर्मा फर्म में सम्मिलित हो गई हैं. वर्तमान में फर्म में भागीदार निम्नानुसार हैं.

1. श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री प्रेम नारायण शर्मा.
2. श्रीमती किशोरी देवी शर्मा पत्नी श्री प्रेम नारायण शर्मा.

(383-बी.)

फर्म-मेसर्स त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कम्पनी,  
राजेश शर्मा  
(पार्टनर)

बी-11, कस्तूरबा नगर, भोपाल (म.प्र.).

### आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मे. शिव शक्ति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पार्टनर शंकरदत्त शुक्ला, अरूण कुमार पटेल, अनिल सिंह परिहार, गगनेन्द्र प्रताप सिंह फर्म से अवकाश ग्रहण कर चुके हैं तथा उपरोक्त पार्टनर के स्थान पर संतराम सिंह चौहान, अभिषेक सिंह चौहान, शिखा सिंह चौहान फर्म में प्रवेश कर चुके हैं.

मैसर्स शिव शक्ति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,  
**Sanjay Singh Chauhan**  
(पार्टनर)

(384-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पुरूषोत्तम शाक्य पुत्र श्री शंकर लाल, निवासी न्यू नरसिंह नगर, चार शहर का नाका, हजीरा ग्वालियर प्रारम्भ से अपना नाम पुरूषोत्तम शाक्य लिखता था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अंकित है. वर्तमान में अपना नाम प्रवीण कुमार पुत्र श्री शंकर लाल लिखना आरम्भ कर दिया है.

अतः भविष्य में भी मुझे पुरूषोत्तम शाक्य के स्थान पर प्रवीण कुमार के नाम से जाना जावे एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :  
(पुरूषोत्तम शाक्य)

नया नाम :  
(प्रवीण कुमार)

पुत्र श्री शंकर लाल,  
न्यू नरसिंह नगर, चार शहर का नाका, ग्वालियर.

(381-बी.)

### सरनेम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पुराना नाम जितेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री बी. डी. शर्मा है जो कि मेरे समस्त शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेजों व शासकीय व अशासकीय विभागों में भी दर्ज है, को आज दिनांक से मेरा नाम जितेन्द्र कुमार चौबे आत्मज श्री बी. डी. शर्मा, लिखा व पढ़ा जाये. समस्त शासकीय, अशासकीय विभागों में वित्तीय संस्थाओं में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :  
(जितेन्द्र कुमार शर्मा)

नया नाम :  
(जितेन्द्र कुमार चौबे)

म. नं. 206, ग्राम पोस्ट मु. बहोरीबंद,  
तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी (म. प्र.).

(382-बी.)

### विविध

#### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन

प्र. क्र. 01 /बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास, नागदा,

जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि संवाद हेतु न्यासी श्री अग्रवाल समाज, नागदा एवं बिरला ग्राम ट्रस्ट, अध्यक्ष श्री ब्रजमोहन गर्ग, नि. नागदा जं. का मध्यप्रदेश लोक

न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 को प्रातः 11.00 बजे विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा।

### अनुसूची

( लोक न्यास का नाम और पता तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन )

न्यास का नाम	..	श्री अग्रवाल समाज, नागदा एवं बिरला ग्राम ट्रस्ट, नागदा जं.
कार्यालय	..	जवाहर मार्ग, बस स्टेण्ड के पास नागदा जं. जिला उज्जैन.
चल-अचल सम्पत्ति	..	धर्मशाल भवन आराजी सर्वे क्र. 449/4, रकबा 0.084 हे. में से 0.031 हे. सर्वे क्र. 449/5 मेंसे 0.084 हे. व सर्वे क्र. 449/6 रकबा 0.094 हे. भूमि पर बना एवं 6,00,000/- रुपये. फिक्स डिपोजिट एवं 82,000/- रुपये वर्तमान बैलेंस जमा.

रजनीश श्रीवास्तव,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(559)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़नगर, जिला उज्जैन

प्र. क्र.1/बी-113/2012-13.

प्रो. र. न. 1009

### फॉर्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1962 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूँकि श्री सुखरामधाम न्यास नरसिंगा द्वारा अध्यक्ष, मनोहरसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी नरसिंगा द्वारा अध्यक्ष, मनोहरसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी नरसिंगा के द्वारा के द्वारा ट्रस्ट को पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय नियमावली के प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति दावा पेश करना चाहते हैं तो वह इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अन्दर न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं निश्चित अवधि के पश्चात् / उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	..	श्री सुखरामधाम न्यास नरसिंगा
ट्रस्ट का पता	..	ग्राम नरसिंगा, तहसील बड़नगर
चल सम्पत्ति	..	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक नरसिंगा, तहसील बड़नगर में बचत खाता क्रमांक 040210110000421, में जमा नगद राशि 11,000/- (ग्यारह हजार रुपया)
अचल सम्पत्ति	..	ग्राम नरसिंगा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1157, रकबा 0.37 हैक्टर.

आज दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(560)

सरोधनसिंह,  
अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर****(फॉर्म-चार)**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चाणक्य यूथ डेवलपमेंट फाउण्डेशन ट्रस्ट, कार्यालय स्कीम नं. 91, मालवा मिल, इन्दौर की ओर से श्री राजू पिता कन्हैयालाल सैन, निवासी 117/1, गोमा की फेल, मालवा मिल, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	चाणक्य यूथ डेवलपमेंट फाउण्डेशन ट्रस्ट.
पता	:	स्कीम नं. 91, मालवा मिल, इन्दौर .
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 30 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(561)

**(फॉर्म-चार)**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

वेद विज्ञान ट्रस्ट कार्यालय, वेद मंदिर, म. नं. 230, भवानी नगर गली नं.1, रॉयल रमण एकेडमी के पीछे, साँवेर रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा उर्फ आचार्य प्रभामित्र, निवासी 230, भावनी नगर, साँवेर रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	वेद विज्ञान ट्रस्ट
पता	:	वेद मंदिर, म. नं. 230, भवानी नगर गली नं.1, रॉयल रमण एकेडमी के पीछे, साँवेर रोड, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	5000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र)

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(561-A)

## ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

मातुश्री रतनबेन पदमसी गोसर, चेरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय 149, स्कीम नं. 47, मनीष बाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री सतीश पिता पदमसी भाई शाह, निवासी 149, स्कीम नं. 47, मनीष बाग कॉलोनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	मातुश्री रतनबेन पदमसी गोसर, चेरिटेबल ट्रस्ट.
पता	:	149, स्कीम नं. 47, मनीष बाग, इन्दौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(561-B)

## ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट, वजीही मोहल्ला, इन्दौर कार्यालय प्लेट नं. 104, राज रेसीडेंसी, ब्रुक बॉण्ड कॉलोनी, (नमक गोडाउन) माणिकबाग रोड, इन्दौर की ओर से श्री शेख असगर भाई मुनाकिबवाला पता 66, ब्रुक बॉण्ड कॉलोनी, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट, वजीही मोहल्ला, इन्दौर.
पता	:	प्लेट नं. 104, राज रेसीडेंसी, ब्रुक बॉण्ड कॉलोनी, (नमक गोडाउन) माणिकबाग रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	5200/- (अक्षरी रुपये पांच हजार दो सौ मात्र).

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,  
रजिस्ट्रार.

(561-C)

## अन्य सूचनाएं

## कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बुरहानपुर, वनमण्डल सा. बुरहानपुर

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि बुरहानपुर वनमण्डल के निम्नलिखित वनक्षेत्र दिनांक 01 जुलाई, 2013 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे, जो चरवाहे अथवा पशु स्वामी इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जावेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:—

## प्रपत्र—1

## चराई वर्ष 2013-14 चराई हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची बुरहानपुर वनमण्डल ( सा. )

परिक्षेत्र	वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
असीर	2008-09	आर. डी. एफ., हरदा	123	50	
असीर	2008-09	आर. डी. एफ., पुरा	130	50	
असीर	2008-09	आर. डी. एफ., खातला	127	50	
असीर	2008-09	आर. डी. एफ., पुरा	135	50	
असीर	2008-09	आर. डी. एफ., खातला	126	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., ढिमानिया	123	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., खातला	127	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., पुरा	133	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., पुरा	134	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., नसीमपुरा	142	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., उ.नसीमपुरा	118	50	
असीर	2009-10	आर. डी. एफ., कोटराखेडा	130	50	
असीर	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	134	100	
असीर	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	135	100	
असीर	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	133	100	
असीर	2010-11	रा. रो. गा. योजना, कोटराखेडा	130	100	
असीर	2010-11	रा. रो. गा. योजना, पू. नसीमपुरा	143	100	
असीर	2010-11	गेप प्लांटिंग, कोटराखेडा	130	10	
असीर	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, असीर	P 152	50	
असीर	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, निम्बोला	157	100	
असीर	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, खातला	125	100	
असीर	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह, विकास	123	10	
असीर	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह, विकास	153 (A)	10	

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
असीर	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह, विकास	153 (B)	10	
असीर	2010-11	मिश्रित वृक्षारोपण	123	40	
असीर	2010-11	बांस वृक्षारोपण	134	75	
असीर	2010-11	गेप प्लान्टिंग	134	25	
असीर	2010-11	सागौन रूटसूट रोपण ए. एन.	155	25	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	138	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	133	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	136 (A)	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	136 (B)	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	156	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	178	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	148	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	149	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	144	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	160	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	118 (A)	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	118 (B)	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	162	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	122	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	26	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	27	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	25	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	150	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	135 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	135 (B)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	156 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	156 (B)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	169 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	136 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	136 (B)	10	
असीर	2011-12	बांस वृक्षारोपण	133	40	

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	157	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	163	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	167	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	135	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	127	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	145	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	24	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	25	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	26	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	117	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	119	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	120	50	
असीर	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण	141	50	
असीर	2012-13	बांस वृक्षारोपण	135	40	
असीर	2012-13	बांस वृक्षारोपण	136	40	
असीर	2012-13	औषधीय पौधा रोपण असीर	150	40	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	24	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	25	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	26	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	119	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	120	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	122	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	155	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	159	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	163	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	138	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	142	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	158	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	125	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	145	50	



1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	123	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	135	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	154	50	
धुलकोट	2008-09	आर. डी. एफ. धुलकोट	95	50	
धुलकोट	2008-09	आर. डी. एफ. सुक्ता	92	50	
धुलकोट	2008-09	आर. डी. एफ. गंभीरपुरा	94	50	
धुलकोट	2008-09	आर. डी. एफ. अम्बा अतिक्रमण	96	50	
धुलकोट	2009-10	आर. डी. एफ. उ.पाडल्या अतिक्रमण	85	50	
धुलकोट	2009-10	आर. डी. एफ. उ. गंभीरपुरा	92	50	
धुलकोट	2009-10	आर. डी. एफ. गंभीरपुरा	94	50	
धुलकोट	2009-10	आर. डी. एफ. धुलकोट	95	50	
धुलकोट	2009-10	आर. डी. एफ. धुलकोट अतिक्रमण	96	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. धुलकोट	95	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. गंभीरपुरा	94	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. इटारिया	89	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. उ. पाडल्या	85	50	
धुलकोट	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास	92 (A)	10	
धुलकोट	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास	92 (B)	10	
धुलकोट	2010-11	मिश्रित वृक्षारोपण	81	30	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ.	92	50	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ.	89	50	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ.	94 (A)	50	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ.	94 (B)	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	96	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	84 (A)	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	84 (B)	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	99	100	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	98	100	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	64(A)	10	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	64 (B)	15	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	89 (A)	10	

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गोप प्लान्टिंग	89 (B)	10	
धुलकोट	2011-12	बांस वृक्षारोपण	81	30	
धुलकोट	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण	81	40	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	95	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	89	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	92	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	82	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	99	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	91	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	87	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	83	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	69	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	71	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	72	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	73	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	74	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	76	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	77	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	78	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	80	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	67	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	62	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	66	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	63	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	65	50	
धुलकोट	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण	94	40	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	63	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	67	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	65	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	87	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	52	50	

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	61	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	91	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	70	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	85	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	86	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	80	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	78	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	73	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	76	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	75	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	88	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	54	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	97	50	
धुलकोट	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण	94	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	
नेपानगर	2007-08	कूप क्र. आई. एस. सी. आई	189	85-25	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	214	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	217	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	218	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	227	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	
नेपानगर	2007-08	ऊर्जा वन	214	20	
नेपानगर	2007-08	चारागाह विकास	227	20	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	202	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. ई/3 245	245	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ. (ए. एन. आर.)	246	50	
नेपानगर	2007-08	ऊर्जा वन	245	20	
नेपानगर	2007-08	चारागाह विकास	245	20	
नेपानगर	2007-08	एफ. डी. ए. (ए. एन. आर.)	245	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ.	187	50	

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ.	188	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ.	185	50	
नेपानगर	2007-08	आर. डी. एफ.	186	50	
नेपानगर	2007-08	सलाई वृक्षारोपण	187, 186, 185	60	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	186	50	
नेपानगर	2008-09	सलाई वृक्षारोपण	187, 186, 185	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	244	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	232	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	229	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	231	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	189	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	190	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	200	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	197	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	209	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ.	230	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	218	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	186	150	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	150	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	224	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	204	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण (आर. डी. एफ.)	217	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	100	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	229	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	230	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण अतिक्रमण	186	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण अतिक्रमण	187	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण अतिक्रमण	218	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण अतिक्रमण	204	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण अतिक्रमण	223	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण अतिक्रमण	225	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण अतिक्रमण	226	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण अतिक्रमण	207	50	
नेपानगर	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण अतिक्रमण	221	50	
नेपानगर	2009-10	औषधीय पौधा रोपण हसनपुरा	202	80	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	189	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	198	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	244	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	245	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	202	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	197	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	211	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	208	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	209	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	201	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	206	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	185	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	188	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	192	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.	193	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	218	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	226	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	225	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	224	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	204	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	207	50	

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (बांस वृक्षारोपण)	206	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	244	40	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	188	30	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	186	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	189	25	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. (मिश्रित वृक्षारोपण)	217	10	
नेपानगर	2010-11	बांस वृक्षारोपण	192	50	
नेपानगर	2010-11	औषधीय पौधा रोपण बोरी	185,187	80	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	194	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	30	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	197	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	200	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	201	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	217	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	229	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	40	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	227	30	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	222	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	186	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	223	50	
नेपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	226	50	

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
नेपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	215	20	
नेपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	229	10	
नेपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	192	10	
नेपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	212	10	
नेपानगर	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण कार्य	217	10	
नेपानगर	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण कार्य (गेप प्लांटिंग)	189	25	
नेपानगर	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण कार्य (गेप प्लांटिंग)	193	25	
नेपानगर	2011-12	बांस वृक्षारोपण	192	40	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	208	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	200	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	186	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	187	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	223	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	224	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	226	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	222	50	
नेपानगर	2012-13	बांस रोपण कार्य	244	50	
नावरा	2007-08	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	298	50	
नावरा	2007-08	ऊर्जावन	295	20	
नावरा	2007-08	ऊर्जावन	296	20	

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
नावरा	2007-08	आर. डी. एफ.	247	50	
नावरा	2007-08	चरागाह विकास	266	20	
नावरा	2008-09	आर. डी. एफ.	266	50	
नावरा	2008-09	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	150	
नावरा	2008-09	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	263	50	
नावरा	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	50	
नावरा	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	266	50	
नावरा	2009-10	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण अतिक्रमण	236	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	298	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. अतिक्रमण	263	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. (मिश्रित वृक्षारोपण)	297	30	
नावरा	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	100	
नावरा	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	268	100	
नावरा	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2011-12	ऊर्जाविन एवं चरागाह विकास	294	20	
नावरा	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण	297	30	
नावरा	2011-12	ऊर्जाविन एवं जलाऊ वृक्षारोपण	294 (I)	10	
नावरा	2011-12	ऊर्जाविन एवं जलाऊ वृक्षारोपण	294 (II)	10	
नावरा	2012-13	ऊर्जाविन एवं चरागाह विकास	285	50	
नावरा	2012-13	ऊर्जाविन एवं चरागाह विकास	295	50	
नावरा	2012-13	ऊर्जाविन एवं चरागाह विकास	294	50	
नावरा	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण	247	40	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	248	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	298	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2012-13	गेप प्लांटिंग	266	10	
नावरा	2013-14	बांस वृक्षारोपण	295	50	



1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
खकनार	2008-09	नानानगरी आर. डी. एफ.	355	50	-
खकनार	2008-09	नावथा (आर. डी. एफ.)	327	50	-
खकनार	2008-09	पाचोरी (आर. डी. एफ.)	364	100	-
खकनार	2008-09	सोनूद (एन. आर. ई. जी. एस.)	321	50	-
खकनार	2008-09	मोहनगढ़ (एन. आर. ई. जी. एस.)	356	50	-
खकनार	2008-09	पाचोरी (आर. डी. एफ.)	362	100	-
खकनार	2008-09	डवाली	326	100	-
खकनार	2008-09	पाचोरी	364	100	-
खकनार	2008-09	सामरिया	330	50	-
खकनार	2009-10	मांजरोद (आर. डी. एफ.)	307	50	-
खकनार	2009-10	भौराघाट (आर. डी. एफ.)	312	100	-
खकनार	2009-10	भौराघाट (आर. डी. एफ.)	313	150	-
खकनार	2009-10	सोनूद (आर. डी. एफ.)	319	100	-
खकनार	2009-10	सोनूद (मिश्रित वृक्षारोपण)	322	100	-
खकनार	2009-10	मांजरोद (गेप प्लांटिंग)	307	25	-
खकनार	2009-10	नावथा (गेप प्लांटिंग)	327	25	-
खकनार	2010-11	देवरी (आर. डी. एफ.)	337	100	-
खकनार	2010-11	डवाली (आर. डी. एफ.)	326	100	-
खकनार	2010-11	सामरिया (आर. डी. एफ.)	334	50	-
खकनार	2010-11	सोनूद (आर. डी. एफ.)	319	50	-
खकनार	2010-11	पाचोरी (आर. डी. एफ.)	362	100	-
खकनार	2010-11	भौराघाट (आर. डी. एफ.)	312	50	-
खकनार	2010-11	भौराघाट (आर. डी. एफ.)	313	50	-
खकनार	2010-11	सोनूद (गेप प्लांटिंग)	320	20	-
खकनार	2010-11	बोरखेड़ा (उच्च तकनीकी)	310	20	-
खकनार	2010-11	मांजरोद (एन. आर. ई. जी. एस.)	308	150	-
खकनार	2010-11	भौराघाट (एन. आर. ई. जी. एस.)	312	100	-
खकनार	2010-11	भौराघाट (एन. आर. ई. जी. एस.)	313	100	-
खकनार	2010-11	सोनूद (एन. आर. ई. जी. एस.)	319	150	-
खकनार	2010-11	धाबा (एन. आर. ई. जी. एस.)	317	50	-
खकनार	2011-12	नानानगरी (आर. डी. एफ.)	355	50	-
खकनार	2011-12	पाचोरी (आर. डी. एफ.)	362	50	-
खकनार	2011-12	पाचोरी (आर. डी. एफ.)	363	50	-
खकनार	2011-12	मांजरोद (आर. डी. एफ.)	307	50	-
खकनार	2011-12	भौराघाट (आर. डी. एफ.)	313	100	-

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
खकनार	2011-12	नावथा (गेप प्लांटिंग)	327	20	-
खकनार	2011-12	डवाली (आर. डी. एफ.)	326	100	-
खकनार	2011-12	डवाली (आर. डी. एफ.)	335	100	-
खकनार	2011-12	देवरी (आर. डी. एफ.)	337	100	-
खकनार	2011-12	बोरखेडा (उर्जा वन चारागाह )	310	10	-
खकनार	2011-12	बोरखेडा (उर्जा वन चारागाह )	310	10	-
खकनार	2011-12	सामरिया (उर्जा वन चारागाह )	332	10	-
खकनार	2011-12	करदली (उर्जा वन चारागाह )	347	10	-
खकनार	2011-12	शंकरपुरा (उर्जा वन चारागाह )	338	10	-
खकनार	2011-12	शंकरपुरा (उर्जा वन चारागाह )	338	10	-
खकनार	2011-12	सोनूद (मिश्रित वृक्षारोपण)	321	60	-
खकनार	2011-12	शंकरपुरा (मिश्रित वृक्षारोपण)	338	50	-
खकनार	2011-12	भौराघाट (गेप प्लांटिंग)	312	25	-
खकनार	2011-12	भौराघाट (गेप प्लांटिंग)	313	50	-
खकनार	2011-12	रायतलाई (बांस वृक्षारोपण)	300	35	-
खकनार	2012-13	भौराघाट (आर. डी. एफ.)	312	25	-
खकनार	2012-13	पाचोरी (आर. डी. एफ.)	362	100	-
खकनार	2012-13	पाचोरी (आर. डी. एफ.)	363	100	-
खकनार	2012-13	नानानगरी (आर. डी. एफ.)	355	50	-
खकनार	2012-13	भौराघाट (आर. डी. एफ.)	313	50	-
खकनार	2012-13	सामरिया (आर. डी. एफ.)	330	50	-
खकनार	2012-13	डवाली (आर. डी. एफ.)	326	50	-
खकनार	2012-13	सोनूद (आर. डी. एफ.)	319	50	-
खकनार	2012-13	मोहनगढ़ (आर. डी. एफ.)	356	50	-
खकनार	2012-13	नावथा (आर. डी. एफ.)	327	100	-
खकनार	2012-13	देवरी (आर. डी. एफ.)	327	50	-
खकनार	2012-13	औषधीय पौधा रोपण नावथा	324	80	-
खकनार	2012-13	औषधीय पौधा रोपण सामरिया	332	45	-
खकनार	2012-13	औषधीय पौधा रोपण दांतपहाडी	360	25	-
खकनार	2012-13	औषधीय पौधा रोपण बोरखेडा	310	20	-
बुरहानपुर	2008-09	गढताल (आर. डी. एफ.)	40	50	-
बुरहानपुर	2008-09	गढताल (आर. डी. एफ.)	46	50	-
बुरहानपुर	2008-09	लालबाग (आर. डी. एफ.)	7	50	-
बुरहानपुर	2008-09	लालबाग (आर. डी. एफ.)	18	50	-
बुरहानपुर	2008-09	लालबाग (आर. डी. एफ.)	12	-	-

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
बुरहानपुर	2008-09	लालबाग (आर. डी. एफ.)	10	50	-
बुरहानपुर	2008-09	गढताल (अतिक्रमण)	41	50	-
बुरहानपुर	2008-09	गढताल (अतिक्रमण)	42	50	-
बुरहानपुर	2008-09	गढताल (अतिक्रमण)	37	50	-
बुरहानपुर	2008-09	लालबाग (अतिक्रमण)	9	50	-
बुरहानपुर	2008-09	लालबाग (मिश्रित वृक्षारोपण)	P 5	50	-
बुरहानपुर	2008-09	लालबाग (अतिक्रमण)	31	50	-
बुरहानपुर	2008-09	गढताल (अतिक्रमण)	49	50	-
बुरहानपुर	2008-09	गढताल (अतिक्रमण)	51	50	-
बुरहानपुर	2008-09	खामला (अतिक्रमण)	169	50	-
बुरहानपुर	2009-10	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	10	50	-
बुरहानपुर	2009-10	भौलाना (आर. डी. एफ.)	7	50	-
बुरहानपुर	2009-10	ठाठर (आर. डी. एफ.)	17	50	-
बुरहानपुर	2009-10	गढताल (आर. डी. एफ.)	38	50	-
बुरहानपुर	2009-10	उताम्बी (आर. डी. एफ.)	33	50	-
बुरहानपुर	2009-10	गढताल (आर. डी. एफ.)	36	50	-
बुरहानपुर	2009-10	सोलाबडी (अतिक्रमण)	42	50	-
बुरहानपुर	2009-10	सोलाबडी (अतिक्रमण)	41	50	-
बुरहानपुर	2009-10	भौलाना (अतिक्रमण)	9	50	-
बुरहानपुर	2009-10	उताम्बी (अतिक्रमण)	31	50	-
बुरहानपुर	2009-10	बसाली (अतिक्रमण)	49	50	-
बुरहानपुर	2010-11	भौलाना (आर. डी. एफ.)	16	50	-
बुरहानपुर	2010-11	बलडी (आर. डी. एफ.)	12	50	-
बुरहानपुर	2010-11	ठाठर (आर. डी. एफ.)	18	50	-
बुरहानपुर	2010-11	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	10	50	-
बुरहानपुर	2010-11	भौलाना (आर. डी. एफ.)	11	50	-
बुरहानपुर	2010-11	उताम्बी (आर. डी. एफ.)	33	50	-
बुरहानपुर	2010-11	सोलाबडी (आर. डी. एफ.)	44	50	-
बुरहानपुर	2010-11	भौलाना (आर. डी. एफ.)	17	50	-
बुरहानपुर	2010-11	बसाली (अतिक्रमण)	49	50	-
बुरहानपुर	2010-11	उताम्बी (अतिक्रमण)	34	50	-
बुरहानपुर	2010-11	सोलाबडी (अतिक्रमण)	41	50	-
बुरहानपुर	2010-11	सोलाबडी (अतिक्रमण)	42	50	-
बुरहानपुर	2010-11	गढताल (अतिक्रमण)	37	50	-
बुरहानपुर	2010-11	बसाली (अतिक्रमण)	31	50	-

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
बुरहानपुर	2010-11	निम्बोला			
बुरहानपुर	2010-11	दक्षिण ठाठर			
बुरहानपुर	2010-11	उत्तर ठाठर			
बुरहानपुर	2011-12	ठाठर (आर. डी. एफ.)	18	50	-
बुरहानपुर	2011-12	ठाठर (आर. डी. एफ.)	17	50	-
बुरहानपुर	2011-12	ठाठर (आर. डी. एफ.)	16	50	-
बुरहानपुर	2011-12	गढताल (आर. डी. एफ.)	46	100	-
बुरहानपुर	2011-12	गढताल (आर. डी. एफ.)	44	50	-
बुरहानपुर	2011-12	गढताल (आर. डी. एफ.)	167	50	-
बुरहानपुर	2011-12	गढताल (आर. डी. एफ.)	164	50	-
बुरहानपुर	2011-12	गढताल (आर. डी. एफ.)	178	50	-
बुरहानपुर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र (आर. डी. एफ.)	169	50	-
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	164	50	-
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	167	50	-
बुरहानपुर	2012-13	आर. डी. एफ.	184	50	-
बुरहानपुर	2012-13	आर. डी. एफ.	180	50	-
बुरहानपुर	2012-13	आर. डी. एफ.	181	50	-
बुरहानपुर	2012-13	सोलाबडी (अतिक्रमण)	40	50	-
बुरहानपुर	2012-13	उ. गढताल (आर. डी. एफ.)	46	50	-
बुरहानपुर	2012-13	पू. गढताल (आर. डी. एफ.)	36	50	-
बुरहानपुर	2012-13	उ. बलडी (आर. डी. एफ.)	12	50	-
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर (आर. डी. एफ.)	16	50	-
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर (आर. डी. एफ.)	17	50	-
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर (आर. डी. एफ.)	18	50	-
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर (आर. डी. एफ.)	20	50	-
बुरहानपुर	2012-13	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	10	50	-
बुरहानपुर	2012-13	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	11	50	-
बुरहानपुर	2012-13	औषधीय पौधा रोपण बलडी	17, 19	45	-
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग (आर. डी. एफ.)	16	50	-
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग (आर. डी. एफ.)	17	50	-
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग (आर. डी. एफ.)	18	50	-
बुरहानपुर	2013-14	प. सोलाबडी (आर. डी. एफ.)	44	50	-
बुरहानपुर	2013-14	पू. सोलाबडी (आर. डी. एफ.)	45	50	-

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
बुरहानपुर	2013-14	भौलाना (आर. डी. एफ.)	7	50	-
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	10	50	-
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	11	50	-
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	12	50	-
बुरहानपुर	2013-14	पू. गढताल (आर. डी. एफ.)	36	50	-
बुरहानपुर	2013-14	द. ठाठर (आर. डी. एफ.)	181	50	-
बुरहानपुर	2013-14	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	182	50	-
बुरहानपुर	2013-14	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	183	50	-
बुरहानपुर	2013-14	उ. ठाठर (आर. डी. एफ.)	167	50	-
बुरहानपुर	2013-14	उ. ठाठर (आर. डी. एफ.)	164	50	-
शाहपुर	2008-09	इच्छापुर (आर. डी. एफ.)	465	50	-
शाहपुर	2008-09	जम्बुपानी (आर. डी. एफ.)	405	50	-
शाहपुर	2008-09	भावसा (आर. डी. एफ.)	450	50	-
शाहपुर	2008-09	जम्बुपानी (मिश्रित)	410	50	-
शाहपुर	2008-09	भावसा (आर. डी. एफ.)	440	50	-
शाहपुर	2008-09	जम्बुपानी (आर. डी. एफ.)	411	50	-
शाहपुर	2008-09	भावसा (आर. डी. एफ.)	448	50	-
शाहपुर	2008-09	जम्बुपानी (आर. डी. एफ.)	P 426	50	-
शाहपुर	2008-09	इच्छापुर (मिश्रित वृक्षारोपण)	469	20	-
शाहपुर	2009-10	कालमाटी (आर. डी. एफ.)	404	50	-
शाहपुर	2009-10	कालमाटी (आर. डी. एफ.)	408	50	-
शाहपुर	2009-10	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	455	50	-
शाहपुर	2009-10	इच्छापुर (आर. डी. एफ.)	468	50	-
शाहपुर	2009-10	इच्छापुर (आर. डी. एफ.)	465	50	-
शाहपुर	2009-10	पांढरी (अतिक्रमण)	410	50	-
शाहपुर	2009-10	पांढरी (अतिक्रमण)	411	50	-
शाहपुर	2009-10	कालमाटी (अतिक्रमण)	442	50	-
शाहपुर	2009-10	चौण्डी (आर. डी. एफ.)	441	50	-
शाहपुर	2010-11	चौण्डी (आर. डी. एफ.)	424	50	-
शाहपुर	2010-11	पाण्डरी (आर. डी. एफ.)	416	50	-
शाहपुर	2010-11	जम्बुपानी (आर. डी. एफ.)	419	50	-
शाहपुर	2010-11	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	455	50	-
शाहपुर	2010-11	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	456	50	-

1	2	3	4	5	6
				(हेक्टर में)	
शाहपुर	2010-11	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	462	50	-
शाहपुर	2010-11	इच्छापुर (आर. डी. एफ.)	464	50	-
शाहपुर	2010-11	चौण्डी (अतिक्रमण)	441	50	-
शाहपुर	2010-11	चौण्डी (अतिक्रमण)	442	50	-
शाहपुर	2010-11	चौण्डी (अतिक्रमण)	447	50	-
शाहपुर	2010-11	चौण्डी (अतिक्रमण)	448	50	-
शाहपुर	2010-11	जम्बुपानी (अतिक्रमण)	427	50	-
शाहपुर	2011-12	चौण्डी (आर. डी. एफ.)	446	50	-
शाहपुर	2011-12	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	456	50	-
शाहपुर	2011-12	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	455	50	-
शाहपुर	2011-12	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	474	50	-
शाहपुर	2011-12	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	452	50	-
शाहपुर	2011-12	मोरझिरा (आर. डी. एफ.)	459	50	-
शाहपुर	2011-12	कालमाटी (आर. डी. एफ.)	419	50	-
शाहपुर	2011-12	कालमाटी (आर. डी. एफ.)	404	50	-
शाहपुर	2011-12	कालमाटी (आर. डी. एफ.)	408	50	-
शाहपुर	2011-12	पांढरी (आर. डी. एफ.)	414	50	-
शाहपुर	2012-13	राजोरा (आर. डी. एफ.)	445	50	-
शाहपुर	2012-13	कालमाटी (आर. डी. एफ.)	408	50	-
शाहपुर	2012-13	कालमाटी (आर. डी. एफ.)	405	50	-
शाहपुर	2012-13	पांढरी (आर. डी. एफ.)	412	50	-
शाहपुर	2012-13	इच्छादेवी (आर. डी. एफ.)	470	50	-
शाहपुर	2013-14	कालमाटी (आर. डी. एफ.)	405	50	-
शाहपुर	2013-14	धामनगांव (आर. डी. एफ.)	462	50	-
शाहपुर	2013-14	कालमाटी (आर. डी. एफ.)	404	50	-
शाहपुर	2013-14	राजोरा (आर. डी. एफ.)	446	50	-
शाहपुर	2013-14	बम्भाडा (आर. डी. एफ.)	453	50	-
शाहपुर	2013-14	मोहद (आर. डी. एफ.)	449	50	-
शाहपुर	2013-14	राजोरा (आर. डी. एफ.)	444	50	-
शाहपुर	2013-14	चौण्डी (आर. डी. एफ.)	428	50	-
बोदरली	2008-09	मिश्रित वृक्षारोपण	484	50	-
बोदरली	2009-10	गेप प्लांटेशन	380	50	-
बोदरली	2010-11	बांस वृक्षारोपण	371	50	-

1	2	3	4	5	6
				(हैक्टर में)	
बोदरली	2011-12	उर्जा वन एवं चरागाह विकास	369	50	-
बोदरली	2011-12	उर्जा वन एवं चरागाह विकास	501	50	-
बोदरली	2012-13	बांस वृक्षारोपण	371	50	-
बोदरली	2012-13	बांस वृक्षारोपण	369	50	-
बोदरली	2012-13	बांस वृक्षारोपण	369	40	-
बोदरली	2013-14	बांस वृक्षारोपण	378	80	-
बोदरली	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	471	12	-

## प्रपत्र-2

## चराई हेतु वर्ष 2013-14 में पूर्ण बंद कम्पार्टमेंट की सूची बुरहानपुर वनमण्डल ( सा. )

परिक्षेत्र	उप वन परिक्षेत्र	बीट	कम्पार्टमेंट	क्षेत्रफल (है. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर			निरंक		
शाहपुर			निरंक		
खकनार			निरंक		
धुलकोट			निरंक		
नेपानगर			निरंक		
नावरा			निरंक		
असीर			निरंक		
बोदरली	बोदरली	उसारणी	495	203.28	
बोदरली	बोदरली	उसारणी	384	704.23	
बोदरली	बोदरली	धावटी	496	375.93	
बोदरली	जसोंदी	करोली	398	483.44	
बोदरली	जसोंदी	पूर्व चिल्लारा	400	694.98	
बोदरली	जसोंदी	प. चिल्लारा	401	550.89	
बोदरली	जसोंदी	प. चिल्लारा	403	605.69	
बोदरली	जसोंदी	झापरपुरा	491	245.62	
बोदरली	तारापाटी	पूर्व कुंवरदेव	389	518.45	
बोदरली	तारापाटी	प. कुंवरदेव	388	504.45	
बोदरली	तारापाटी	तारापाटी	392	751.11	
बोदरली	तारापाटी	मोहना	376	607.28	
बोदरली	फोपनार	प. चिडियापानी	431	693.01	
बोदरली	फोपनार	पू. चिडियापानी	429	797.93	
बोदरली	फोपनार	उत्तर भावसा	433	619.02	
बोदरली	फोपनार	उत्तर भावसा	434	429.44	
बोदरली	आमगांव	राजोरा	380	690.65	

## प्रपत्र-3

## चराई वर्ष 2013-14 में बंद कूपों की सूची बुरहानपुर वनमण्डल (सा.) बुरहानपुर

परिक्षेत्र का नाम	पातन श्रेणी	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम/ कक्ष क्र.	कूप क्र.	क्षेत्रफल (है. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
नावरा	छिरवा	275	I	122.75	-
	गोंडवाडी	282	I	71.32	-
	गुजरीखेड़ा	283	I	70.42	-
	मझगांव	288	I	89.32	-
	डवाली	291	I	84.60	-
	हैदरपुर	273	I	85.25	-
				<b>523.66</b>	
नावरा	छिरवा	276	II	78.95	-
	गोंडवाडी	282	II	84.83	-
	गुजरीखेड़ा	283	II	81.45	-
	मझगांव	288	II	97.32	-
	डवाली	291	II	60.94	-
				<b>403.47</b>	
नावरा	बाकडी	260	III	238.95	-
	छिरवा	276	III	80.52	-
	गोंडवाडी	282	III	70.87	-
	गुजरीखेड़ा	283	III	78.10	-
	मझगांव	288	III	93.50	-
	डवाली	291	III	67.50	-
				<b>629.44</b>	
नावरा	बाकडी	260	IV	203.62	-
	छिरवा	276	IV	100.57	-
	गोंडवाडी	282	IV	68.40	-
	गुजरीखेड़ा	283	IV	80.30	-
	मझगांव	288	IV	84.15	-
	डवाली	291	IV	71.30	-
	टुलियामाल	237	IV	117.67	-
				<b>726.01</b>	



1	2	3	4	5	6
नावरा	बाकड़ी	260	V	96.45	-
	छिरवा	276	V	93.01	-
	गोंडवाडी	282	V	85.50	-
	गुजरीखेड़ा	283	V	107.07	-
	मझगांव	288	V	133.50	-
	डवाली	291	V	76.75	-
	दुलियामाल	237	V	126.45	-
	डेहरिया	254	V	184.78	-
	साईंखेड़ा खुर्द	267	V	76.92	-
				<b>980.43</b>	
नावरा	हैदरपुर	270	VI	131.11	-
	हीरापुर	274	VI	219.82	-
	छिरवा	276	VI	104.85	-
	गोंडवाडी	282	VI	161.22	-
	गुजरीखेड़ा	283	VI	111.25	-
	घमनपुरा	286	VI	79.20	-
	डवाली	291	VI	84.15	-
	बाकड़ी	254	VI	200.92	-
				<b>1092.52</b>	
नावरा	हिवरा	274	VII	111.82	-
	बाकड़ी	276	VII	90.42	-
	छिरवा	281	VII	95.69	-
	गुजरीखेड़ा	284	VII	82.55	-
	मझगांव	286	VII	112.12	-
	साजनी	289	VII	102.05	-
	अहमदनगर	256	VII	151.55	-
	डेहरिया	249	VII	165.25	-
	हैदरपुर	270	VII	95.17	-
				<b>1006.62</b>	

1	2	3	4	5	6
खकनार	भौराघाट	310	II, III, IV, VI	702.52	-
खकनार	भौराघाट	314	V, VI	118.49	-
खकनार	सामरदेव	329	II, III, IV, V, VI	519.77	-
खकनार	सामरिया	332	II, VI	560.59	-
खकनार	सामरिया	338	III, IV, V, VI, VIII	827.75	-
खकनार	मोहनगढ़	350	II, III, IV, VI	741.47	-
खकनार	मोहनगढ़	349	V, VI, VII	183.60	-
खकनार	पाचोरी	360	II, VI	280.77	-
खकनार	पाचोरी	361	III, IV, V, VI, VII	446.51	-
खकनार	पांगरी	P 340, 341	VI	212.78	-
खकनार	पांगरी	357	II, III, IV, VI	365.07	-
खकनार	पांगरी	358	V, VI, VII	159.65	-
खकनार	सामरदेव	317	VII	117.35	-
खकनार	भौराघाट	315	VII	76.42	-
बुरहानपुर	चौण्डी	437	I, II, III	749.89	-
बुरहानपुर	तारापाटी	387	I, II	575.73	-
बुरहानपुर	तारापाटी	394	III	110.52	-
बुरहानपुर	जसौदी	490, 492	I	216.4	-
बुरहानपुर	जसौदी	413	II	207.72	-
बुरहानपुर	जसौदी	P-409, 486, 412	III	151.05	-
बुरहानपुर	जम्बुपानी	420	I, II	117.05	-
बुरहानपुर	जम्बुपानी	423	III	82.42	-
बुरहानपुर	चौण्डी	436	IV	138.21	-
बुरहानपुर	तारापाटी	394	IV	106.65	-
बुरहानपुर	जसौदी	402	IV	135.35	-
बुरहानपुर	जम्बुपानी	423	IV	92.35	-
बुरहानपुर	चौण्डी	430	V	159.57	-
बुरहानपुर	तारापाटी	395	V	92.05	-
बुरहानपुर	जसौदी	402	V	141.92	-
बुरहानपुर	जम्बुपानी	423	V	102.47	-
बुरहानपुर	जम्बुपानी	423	VI	160.34	-

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	चौण्डी	430	VI	171.24	-
बुरहानपुर	तारापाटी	395	VI	112.1	-
बुरहानपुर	जसौदी	402	VI	105.97	-
शाहपुर	चौण्डी	437	I, II, III	749.89	-
शाहपुर	जम्बुपानी	420	I, II	117.05	-
शाहपुर	जम्बुपानी	423	III	82.42	-
शाहपुर	चौण्डी	436	IV	138.21	-
शाहपुर	जम्बुपानी	423	IV	92.35	-
शाहपुर	जम्बुपानी	423	V	102.47	-
शाहपुर	जम्बुपानी	423	VI	160.34	-
बोदरली	दांतपहाडी	365	I, II, III, IV, V, VI, VII	779.87	-
बोदरली	धावटी	378	I, II, III, IV, V, VI, VII	634.01	-
बोदरली	तारापाटी	395	V, VI	272.55	-
बोदरली	तारापाटी	394	III	110.52	-
बोदरली	तारापाटी	387	I	249.52	-
बोदरली	चौण्डी	430	VI, VII	358.36	-
बोदरली	जसौदी	402	IV, V, VI, VII	444.02	-
बोदरली	जसौदी	486	III	48.26	-
बोदरली	आमगांव	368	VI, VII	492.44	-
बोदरली	आमगांव	369	I, II, III, IV, V	545.07	-
नेपानगर	हसनपुरा	213	V, VI, VI	274	-
नेपानगर	हसनपुरा	210	II	157.89	-
नेपानगर	हसनपुरा	203	III, IV	315.59	-
नेपानगर	अहमदनगर	243	II, III	425.67	-
नेपानगर	अहमदनगर	242	VI	214.76	-
नेपानगर	मांडवा	213	VI	77.85	-

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

अध्यक्ष,

जय शीतला बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जय शीतला बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए.आर./409, दिनांक 04 अगस्त, 2010 की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं.—

1. संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष . . . . . से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष . . . . . का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(562)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

अध्यक्ष,

गिराज बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., सुल्तानपुर,  
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिराज बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., सुल्तानपुर, ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए.आर./313, दिनांक 03-10 की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं.—

1. संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 05 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे संस्था का वर्ष . . . . . का अंकेक्षण लंबित है।

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(562-A)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति

द्वारा-अध्यक्ष

जय माँ वैष्णों बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., डबरा,  
जिला ग्वालियर.

जय माँ वैष्णों बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./जी. डब्ल्यू.आर./417, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 है, के सम्बन्ध में संस्था की कार्यप्रलापी के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया गया है। जिससे संस्था के विगत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं हो सका है।
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हितों में कार्य न करते हुये एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिये कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा पंजीयकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
4. संस्था द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को चार्ज प्रदान नहीं किया है। इस कारण संस्था का निर्वाचन नहीं हो पा रहा है।
5. संस्था अपने पंजीयकृत पते पर विद्यमान नहीं है।

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र के संलग्न प्रतिवेदन के जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(562-B)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति

द्वारा-अध्यक्ष

राजनन्दनी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., सिकरौदा,

वि. ख. भितरवार, जिला ग्वालियर.

राजनन्दनी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., सिकरौदा, वि. ख. भितरवार, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./415, दिनांक 30 अगस्त, 2013 है, के सम्बन्ध में संस्था की कार्यप्रलाणी के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया गया है. जिससे संस्था के विगत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं हो सका है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हितों में कार्य न करते हुये एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिये कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा पंजीयकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
4. संस्था द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को चार्ज प्रदान नहीं किया है. इस कारण संस्था का निर्वाचन नहीं हो पा रहा है.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र के संलग्न प्रतिवेदन के जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(562-C)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति

द्वारा-अध्यक्ष

नामधारी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., बड़कीसराय,

वि. ख. भितरवार, जिला ग्वालियर.

नामधारी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., बड़कीसराय, वि. ख. भितरवार, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./413, दिनांक 16 अगस्त, 2013 है, के सम्बन्ध में संस्था की कार्यप्रलाणी के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया गया है. जिससे संस्था के विगत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं हो सका है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हितों में कार्य न करते हुये एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिये कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा पंजीयकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
4. संस्था द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को चार्ज प्रदान नहीं किया है. इस कारण संस्था का निर्वाचन नहीं हो पा रहा है.

5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र के संलग्न प्रतिवेदन के जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(562-D)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति

द्वारा-अध्यक्ष

लघु किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., डबरा,

जिला ग्वालियर.

लघु किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./410, दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 है, के सम्बन्ध में संस्था की कार्यप्रलाणी के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया गया है. जिससे संस्था के विगत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं हो सका है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हितों में कार्य न करते हुये एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिये कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा पंजीयकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
4. संस्था द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को चार्ज प्रदान नहीं किया है. इस कारण संस्था का निर्वाचन नहीं हो पा रहा है.
5. संस्था अपने पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र के संलग्न प्रतिवेदन के जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

आर. के. वाजपेई,

उप-पंजीयक.

(562-E)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्था मर्या., मुरैना

निम्न सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। इन संस्थाओं को कार्यालयीन सूचना-पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने के सूचना-पत्र निम्न आधारों पर जारी किये गये :—

1. संस्था द्वारा पंजीयन आदेश में वर्णित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के हित सम्बन्धों के लिए कार्य करती है तथा साधारणतः समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिए कार्य नहीं करती है।
4. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम तथा संस्था उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक
1	2	3
1.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., अजनौधा	476/01-02-1981
2.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., लल्लूबसई	456/01-02-1981
3.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., सिहोनिया	851/04-02-1989
4.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., रुअरिया	850/04-02-1989
5.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., महूरी	855/04-02-1989
6.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., माताकापुरा	852/04-02-1989
7.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., बावरीपुरा	924/16-01-1990
8.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., लीटियापुरा	922/16-01-1990
9.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., बरौली	813/27-01-1989
10.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., माधोपुरा	1085/20-08-1995
11.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., पिपरौआ	1229/31-05-2004
12.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., चमरगवा	1276/23-09-2004
13.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., मुन्द्रावजा	556/05-05-1983
14.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., सुमावली	536/26-05-1982
15.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., बागचीनी	538/26-05-1982
16.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., भैसरोली	548/26-05-1982
17.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., उम्मेदगढवासी	550/26-05-1982
18.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., चैना	558/26-05-1982
19.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., टिकटोली	556/26-05-1982
20.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., भटपुरानदी	1180/15-07-2002
21.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., डिडोखर	1303/02-02-2005
22.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., छोटेशिंहकापुरा	1321/14-06-2002
23.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., दोहरी	478/07-02-1981
24.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., नावली	622/30-05-1986
25.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., वित्तकापुरा	673/27-03-1987
26.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., कल्लूकापुरा	675/06-04-1987
27.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., चिन्टेकापुरा	802/30-11-1988



1	2	3
28.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., रुद्रकापुरा	808/30-11-1988
29.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., विचौला	816/27-01-1989
30.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., ऐसाह	823/27-01-1989
31.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., नयापुरा	829/27-01-1989
32.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., चतुरकीगढी	856/04-02-1989
33.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., विजलीकापुरा	889/16-05-1989
34.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., धनसुला	1181/16-05-1989
35.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., छिददेकापुरा	1186/16-05-1989
36.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., टीकतपुरा	1182/16-05-1989
37.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., चाँदकापुरा	1297/12-04-2004
38.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., खेरो	1216/12-04-2004
39.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., तालकापुरा	1297/12-04-2004
40.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., अजुध्दीपुरा	1218/12-04-2004
41.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., तरैनी	1286/30-04-2004
42.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., भौनपुरा	1234/10-06-2004
43.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., पाली	1265/03-08-2004
44.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., गणेशपुरा	1270/13-08-2004
45.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., पंचमपुरा	1275/23-09-2004
46.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., जुझकी	1301/01-12-2004
47.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., पुरावसखुर्द	1331/10-02-2006
48.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., बीजला	1324/28-03-2006
49.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., सेथराअहीर	628/30-05-1986
50.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., रजोघा	630/30-05-1986
51.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., भदावली	631/30-05-1986
52.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., डोडरी	633/30-05-1986
53.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., नगरापोरसा	638/30-05-1986
54.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., वनवरिया	734/11-03-1988
55.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., हिगोटियाई	824/27-01-1989
56.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., विजयगढ	834/27-01-1989
57.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., साठों	835/27-01-1989
58.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., कुरेठा	837/27-01-1989
59.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., खेरली	836/27-01-1989
60.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., सिलावली	838/27-01-1989
61.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., महुआ	839/27-01-1989
62.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., कोथरकला	842/27-01-1989
63.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., कोथरखुर्द	846/27-01-1989

1	2	3
64.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., नंदकापुरा	621/30-05-1986
65.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., घोरा	900/28-02-1991
67.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., मानधातकापुरा	1026/31-03-1995
68.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., खोयला	1029/31-03-1995
69.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., बहोरपुरा	1212/09-03-2004
70.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., जाहरपुर	1235/10-06-2004
71.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., पाटीवारा	1263/20-07-2004
72.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., रावतकी	1268/03-08-2004
73.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., सेथराबाडई	1272/10-08-2004
74.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., पाली	1297/01-12-2004
75.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., अकोलेकापुरा	1298/01-12-2004
76.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., बजरिया	1299/01-12-2004
77.	दुग्ध सह. संस्था मर्या., पुरोहितकापुरा	1300/01-12-2004
78.	कोआ. सेविंग साख सह., मुरैना	181/02-03-1963
79.	एल.आई.सी. कर्म. साख सह. संस्था, मुरैना	844/19-10-1982
80.	नागरिक साख सह. संस्था, मुरैना	1215/27-03-2004
81.	महिला एकता साख सह. संस्था, जौरा	1137/21-04-1999
82.	प्राथ. बुनकर सह. संस्था, हिगोनाखुर्द	353/30-09-1992
83.	जय दुर्गे बुनकर सह. संस्था, मुरैना	205/19-09-1980
84.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, मिरघान	572/27-12-1984
85.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, जींगनी	573/27-12-1984
86.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, बडगांव	574/27-12-1984
87.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, अजनोधा	585/31-03-1986
88.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, जारह	618/04-04-1986
89.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, जनकपुर	663/21-08-1986
90.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, सरायछोला	669/20-03-1987
91.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, मेहचन्द्रपुर	725/22-05-1988
92.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, डोंगरपुर किरार	751/24-03-1988
93.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, पिपरई	952/30-09-1991
94.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, अरदौनी	935/30-09-1991
95.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, धनेला	611/04-04-1986
96.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, हुसैनपुर	605/31-03-1986
97.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, छेरा	579/22-12-1984
98.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, सरसेनी	614/04-04-1986
99.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, बरौंड	615/04-04-1986
100.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, सुमावली	724/04-03-1988
101.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, मई	743/24-03-1988

1	2	3
102.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, धमकन	776/06-07-1988
103.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, चैना	776/06-07-1988
104.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, टुडीला	884/06-04-1989
105.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, किरावली	604/31-03-1986
106.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, शहदपुर	607/31-03-1986
107.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, दीपेरा	616/04-04-1986
108.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, निरारा	650/20-03-1987
109.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, सुजानगढी	649/20-03-1987
110.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, भुरावली	618/04-04-1986
111.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, मांमचोन	723/11-02-1988
112.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, खेराकला	746/24-03-1988
113.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, रीजोनी	755/24-03-1988
114.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, कोटरा	749/24-03-1988
115.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, डमेजर	874/01-04-1988
116.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, रजौधा	582/23-02-1985
117.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, भोनपुरा	745/24-03-1988
118.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, सेथराअहीर	609/31-03-1986
119.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, गिरदोली	760/06-04-1988
120.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, खडियार	576/31-03-1986
121.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, लल्लूबसई	877/11-04-1989
122.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, नंदगांगोली	721/11-12-1987
123.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, बडफरा	875/11-04-1989
124.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, तोरकुम्ब	592/31-03-1986
125.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, कुथियाना	654/20-03-1989
126.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, गोठ	570/27-12-1984
127.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, थरा, (अंबाह)	612/19-04-1988
128.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, चांद का पुरा	668/20-03-1987
129.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, दोहरी	635/20-03-1987
130.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, सिरमोर का पुरा	759/29-03-1988
131.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, लगडिया	954/30-09-1991
132.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, खेरला	602/31-02-1986
133.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, कुलहोली	605/31-03-1986
134.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, कैमाराकला	730/01-03-1988
135.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, लाड का पुरा	879/01-04-1989
136.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, बिचौला	651/02-03-1987
137.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, तिंदोखर	607/31-03-1986
138.	फल, साग-भाजी सह. संस्था, कच्चापुरा	1100/10-09-1996

1	2	3
139.	इन्द्रा फल, साग-भाजी सह. संस्था, दोहरी	1173/12-09-2001
140.	करन फल, भाजी सह. संस्था, माफल का पुरा	1174/12-09-2001
141.	सो. गां. फल, भाजी सह. संस्था, श्यामपुर	1175/12-09-2001
142.	एम.एल.डी. फल, भाजी सह. संस्था, भाडोली	1176/12-09-2001
143.	रामप्रसाद फल, भाजी सह. संस्था, पोरसा	1177/14-09-2001
144.	नगाजी फल, भाजी सह. संस्था, तिन्दोखर	1178/14-09-2011
145.	नारी कल्याण सह. संस्था, गोस्वामी रोड, मुरैना	495/24-08-1981
146.	नारी कल्याण सह. संस्था, सब्जी मंडी, मुरैना	529/23-02-1982
147.	नारी कल्याण सह. संस्था, लोहिया बाजार, मुरैना	527/09-02-1982
148.	सिलार्ई उद्योग सह. संस्था, मुरैना	470/27-02-1982
149.	सिलार्ई उद्योग सह. संस्था, पोरसा	44/06-10-1980
150.	बामसेफ लेदर सह. संस्था, मुरैना	517/18-11-1981
151.	आदर्श तेल उद्योग सह. संस्था, जींगनी	227/22-01-1991
152.	संजय शक्ति चलित सह. संस्था, अम्बाह	461/03-12-1980
153.	एकता रिफायनरी सह. संस्था, बामोर	588/03-08-1985
154.	लोहकार उद्योग सह. संस्था, मुरैना	543/18-08-1982
155.	बुमेन बेलफेयर सह. संस्था, मुरैना	115/14-08-1989
156.	आदर्श मसाला उ. सह. संस्था, मुरैना	1057/04-10-1995
157.	ईट-चूना सह. संस्था, नावली	408/04-12-1979
158.	ईट-चूना उद्योग सह. संस्था, गडौरा	450/03-11-1980
159.	भवन सामग्री सह. संस्था, दीखतपुरा	485/04-04-1987
160.	भवन सामग्री सह. संस्था, लक्ष्मण तलैया	527/17-07-1981
161.	आदर्श भवन सामग्री सह. संस्था, रामनगर	586/11-07-1986
162.	हरिजन पत्थर सह. संस्था, सर्वजीतपुरा	719/05-02-1988
163.	ईट-चूना सह. संस्था, मुडियाखेडा	732/15-11-1989
164.	भवन सामग्री सह. संस्था, लल्लूवसई	493/24-07-1991
165.	ईट-चूना सह. संस्था, खिरावली	391/25-07-1992
166.	पटियावाले सह. संस्था, नूरावाद	1355/15-08-2006
167.	प्राथ. यातायात सह. संस्था, मुरैना	58/29-10-1993
168.	बजरंग सह. संस्था, मुरैना	61/21-12-1994
169.	नागाजी सह. संस्था, अम्बाह	50/26-12-1993
170.	डॉ. अम्बेडकर सह. संस्था, रसीलपुर	961/17-03-1993
171.	कन्टेक्शन मटे. खनिज सह. संस्था, लालताकापुरा	571/03-06-1996
172.	बाबा रामदास सह. संस्था, गढाजर	1070/30-03-1996
173.	आदिवासी खदान सह. संस्था, बधेवर	1103/06-02-2000
174.	कामतानाथ परिवार कल्याण सह. संस्था, मुरैना	1138/23-05-1999
175.	मोहन स्टेशनरी सह. संस्था, मुरैना	89/29-06-1988

1	2	3
176.	शिवम् पेपर सह. संस्था, मुरैना	168/05-08-1990
177.	महिला स्टेशनरी सह. संस्था, मुरैना	1115/31-12-1996
178.	बहु. सह. संस्था मर्या., मुरैनागाँव	383/04-07-1959
179.	महिला बहु. सह. संस्था, महाराजपुरा	1136/07-02-1999
180.	महिला बहु. सह. संस्था, नूरावाद	1285/04-10-2004
181.	महिला बहु. सह. संस्था, घुरधान	1267/12-08-2004
182.	जयकाली माँ सह. संस्था, सूरजनपुर	1336/28-02-2007
183.	माँ पिताम्बरा महिला सह. संस्था, बडागाँव	1337/20-06-2007
184.	माँ शीतला सह. संस्था, पढावली	1346/25-01-2008
185.	जय गोपाजी सह. संस्था, छौंदा	1360/29-12-2008
186.	महिला सह. संस्था मर्या., बिजलीकापुरा	1152/18-07-2000
187.	रामक्वारी सह. संस्था मर्या., डोगरपुर	1195/12-12-2002
188.	जय कैलादेवी सह. संस्था, विलगाँवक्वारी	1327/25-05-2006
189.	भक्ति पुज सह. संस्था मर्या., मुन्द्रावजा	1192/30-10-2002
190.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., उम्मेदगढवासी	1220/21-04-2004
191.	माँ वेष्णों देवी सह. संस्था मर्या., विलगाँव	1278/31-09-2004
192.	माँ सती महिला सह. संस्था मर्या., गलैथा	1284/04-10-2004
193.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., सुजानगढी	1286/06-01-2004
194.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., जीगनी	1191/12-08-2002
195.	लीलावती महिला बहु. सह. संस्था मर्या., मोदना भीकम	1196/18-12-2002
196.	पीताम्बरा सह. संस्था मर्या., नाहरदोकी	1278/06-10-2004
197.	गायत्री सह. संस्था मर्या., तोरतिलावली	1320/21-01-2006
198.	श्री जी महिला सह. संस्था मर्या., बरैण्ड	1323/05-04-2006
199.	माँ चौरेडगरेवाली सह. संस्था मर्या., खेडाडिगरवार	1198/02-07-2004
200.	महिला सह. संस्था मर्या., रामपुरगिर्द	1269/02-07-2004
201.	अन्त्योदय सह. संस्था मर्या., जागीरसराय	1779/30-09-2004
202.	महिला सह. संस्था मर्या., बावरीपुरा	1282/04-10-2004
203.	माँ ककाली सह. संस्था मर्या., बरोठा	1288/06-10-2004
204.	जय दुर्गे बहु. सह. संस्था मर्या., गोवरा	1306/31-03-2008
205.	श्रमजीवी मुद्रणालय सह. संस्था मर्या., मुरैना	970/20-06-2004

उक्त संस्थाओं के पुनः कार्यालयीन पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2013/24 सितम्बर, 2013 को इस बावत् स्मरण-पत्र जारी कर आरोपों के सम्बन्ध में प्रति उत्तर 15 दिवस में चाहा गया है.

अतः उक्त संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सदस्यगण को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित इस सूचना-पत्र के माध्यम से पुनः अवगत कराया जाता है कि निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा कि स्थिति में यह माना जाकर कि कार्यालय द्वारा जारी आरोप-पत्र से सहमत हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश प्रसारित कर दिया जावेगा तथा उक्त संस्थाओं को सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

उपेन्द्र सिंह,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेमरीकला, भोपाल.	793/27-02-1998	1387/01-06-2013
2.	मंजू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हिनोती, भोपाल.	962/24-12-2003	1386/01-06-2013
3.	सतपुड़ा गृह निर्माण सह. संस्था	DRB/357/06-07-1983	1706/28-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 11 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(543)

सुविता,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	627/23-02-1995	1251/23-05-2013
2.	एसोसियेट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	221/09-07-1981	1252/23-05-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(544)

सुरेश बरकडे,

परिसमापक एवं व. सह. निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	नवनीत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	549/05-12-1991	1262/23-05-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 11 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(545)

**अभय देशपांडे,**  
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	सोनम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जमूसरखुर्द.	ARB-982/16-06-2004	1391/01-06-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसोदा	ARB-260/23-10-1986	1379/01-06-2013
3.	गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB-515/16-09-1987	1702/28-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 11 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(546)

**अलका तिग्गा,**  
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	राधा कृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	773/01-01-1998	3214/11-08-2011

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 11 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(547)

मीरा देवी,  
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	सृष्टि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB-609/20-01-1994	1264/23-05-2013
2.	नव सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB-249/07-09-1981	1259/23-05-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 11 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(548)

पंकज श्रीवास्तव,  
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत



निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	चाहत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,	DRB-659/04-08-1995	परि./1700/28-06-2013
2.	न्यू केपीटल प्रोजेक्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,	DRB-218/26-06-1981	परि./1704/28-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 11 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(549)

विनोद कुमार जैन,  
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ऊनाहा, जिला भोपाल	261/30-10-1986	1364/01-06-2013
2.	जय श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB-939/10-07-2003	1699/28-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 10 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(550)

एच. एन. वर्मा,  
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	बद्री नारायण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,	DRB-1130/30-12-2008	1695/28-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 10 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(551)

प्रमोद राय,  
परिसमापक एवं उप. अंकेक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	अंजली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	ARB-912/19-08-2002	1388/01-06-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तूमड़ा, भोपाल	ARB-225/17-10-1984	1365/01-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 11 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(552)

संगीता मीना,  
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	सहकारिता विभाग अधि. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,	670/06-10-1995	1257/23-05-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 10 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(553)

बी. आर. जंगले,  
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2013-आश्विन 26, शके 1935

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 जून, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कराहल, (श्योपुर), अटेर, मेंहगांव (भिण्ड), भितरवार (ग्वालियर), कोलारस (शिवपुरी), गुना, बमोरी, आरोन (गुना), निवाड़ी पृथ्वीपुर, जतारा, बल्लदेवगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, छतरपुर (छतरपुर), मानपुरा (उमरिया), रामपुरनैकिन (सीधी), मो. बड़ोदिया, बड़ोद, शाजापुर (शाजापुर), थांदला, मेघनगर, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), जोवट, च. शेखर, आ.नगर (अलीराजपुर), सरदारपुर, कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी, डही (धार), बड़वानी, राजपुर, पाटी, निवाली (बड़वानी), सिरोंज, कुरवाई (विदिशा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर (ग्वालियर), पिछोर, नरवर, करैरा, पोहरी (शिवपुरी), पलेरा (टीकमगढ़), लौण्डी, राजनगर (छतरपुर), बीना (सागर), बटियागढ़ (दमोह), मझौली (सीधी), सुवासराटप्पा, मल्हारगढ़, धुन्धडका, मंदसौर (मंदसौर), खाचरौद (उज्जैन), गुलाना (शाजापुर), बदनावर, मनावर (धार), ठीकरी, पानसेमल (बड़वानी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील भिण्ड (भिण्ड), सेंवड़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), खनियाधाना, (शिवपुरी), राधौगढ़, कुंभराज (गुना), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), नौगांव, बिजावर, बक्स्वाहा (छतरपुर), गुन्नौर (पन्ना), पाली (उमरिया), सिंहावल (सीधी), घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), कालापीपल (शाजापुर), पेटलावद (झाबुआ), धार (धार), सेंधवा (बड़वानी), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), लटेरी, नटेरन (विदिशा), बरही (कटनी), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील डबरा, (ग्वालियर), शिवपुरी, बदरवास (शिवपुरी), चाचौड़ा (गुना), बड़ामलहरा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई, शाहनगर (पन्ना), खुरई, बण्डा, सागर, रहली, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़, मालथोन (सागर), हटा, दमोह, पथरिया, जवेरा, पटेरा (दमोह), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), गोपदवनास, कुसमी, चुरहट (सीधी), भानपुरा, गरोठ, सीतामऊ, शामगढ़, संजीत (मंदसौर), जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना, पिपलौदा, रतलाम (रतलाम), महिदपुर, तराना (उज्जैन), शुजालपुर (शाजापुर), खकनार (बुरहानपुर), बासौदा, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया (भोपाल), आष्टा, बुधनी (सीहोर), रायसेन,

गैरतगंज, बेगमगंज, बाड़ी, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), भैसदही, शाहपुरा, चिचौली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, पचमढी, वनखेड़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, मझौली, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बड़वारा (कटनी), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, जामई, सोंसर, पाण्डुर्णा, अमरबाड़ा, चौरई, बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, घंसौर, धनोरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट, बैहर, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( ड ) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील तेन्दूखेड़ा (दमोह), हुजूर (भोपाल), सीहोर, इछावर, नसरूल्लागंज (सीहोर), घोड़ाडोंगरी (बैतूल), पाटन (जबलपुर), हरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, शहडोल, उमरिया, सीधी, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, बैतूल, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा सिवनी में जुताई व रायसेन, होशंगाबाद में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला अनूपपुर, में फसल मक्का, धान व सिंगरौली में मक्का, सांवा व डिण्डोरी, मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर व मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, उमरिया, मंदसौर, झाबुआ, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, कटनी, सीधी, धार, इंदौर, बड़वानी, हरदा, छिन्दवाड़ा, सिवनी में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.— ..

6. सिंचाई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, गुना, छतरपुर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी, बैतूल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाप्तांत बुधवार, दिनांक 26 जून, 2013

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस ..	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल 7.2 3. विजयपुर ..	.. 7.2 ..				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 5.0 2. भिण्ड 36.0 3. गोहद .. 4. मेहगांव 12.4 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन ..	5.0 36.0 .. 12.4 .. .. ..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 31.2 2. डबरा 56.0 3. भितरवार 2.0 4. घाटीगांव ..	31.2 56.0 2.0 ..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 38.4 2. दतिया 48.4 3. भाण्डेर 35.2	38.4 48.4 35.2				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 87.2 2. पिछोर 34.3 3. खनियाधाना 38.0 4. नरवर 19.0 5. करैरा 18.0 6. कोलारस 15.0 7. पोहरी 25.0 8. बदरवास 54.0	87.2 34.3 38.0 19.0 18.0 15.0 25.0 54.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला अशोकनगर:</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	15.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधौगढ़	35.0		(2) ..	..	
3. बमोरी	13.0				
4. आरोन	10.0				
5. चाचौड़ा	61.0				
6. कुम्भराज	45.0				
7. मकसूदनगढ़	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	3.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	3.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	8.0				
4. टीकमगढ़	37.0				
5. बल्देवगढ़	15.0				
6. पलेरा	29.0				
6. ओरछा	11.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	18.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	2.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	37.5				
4. छतरपुर	3.8				
5. राजनगर	20.4				
6. बिजावर	50.0				
7. बड़ामलहरा	75.0				
8. बकस्वाहा	42.0				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	53.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	56.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	37.0				
4. पवई	74.0				
5. शाहनगर	117.4				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	31.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	174.0		उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	77.1		सोयाबीन समान.		
4. सागर	239.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	92.3				
6. देवरी	179.0				
7. गढ़ाकोटा	101.0				
8. राहतगढ़	84.0				
9. केसली	204.4				
10. शाहगढ़	165.0				
11. मालथोन	54.6				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, सुधरी हुई. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	66.0				
2. बटियागढ़	29.0				
3. दमोह	116.9				
4. पथरिया	72.0				
5. जवेरा	173.0				
6. तेन्दूखेड़ा	389.4				
7. पटेरा	110.0				
<b>*जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>*जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. ल्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. सेमरिया	..				
4. मऊगंज	..				
5. मनगवां	..				
6. हनुमना	..				
7. हजूर	..				
3. गुढ़	..				
9. रायपुरकचुलियान	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. मक्का, धान की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	53.8				
2. अनूपपुर	76.9				
3. कोतमा	80.7				
4. पुष्पराजगढ़	72.7				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	128.7				
2. पाली	51.0				
3. मानपुर	6.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. गोपदवनास	57.0				
2. सिंहावल	42.0				
3. मझौली	24.0				
4. कुसमी	64.0				
5. चुरहट	99.0				
6. रामपुरनैकिन	9.2				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मक्का, सावा की बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	33.9				
2. भानपुरा	81.8				
3. मल्हारगढ़	32.0				
4. गरोठ	79.6				
5. धुन्डका	26.0				
6. मन्दासौर	29.0				
7. सीतामऊ	112.0				
8. शामगढ़	60.0				
9. संजीत	57.0				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	147.1				
2. आलोट	157.8				
3. सैलाना	166.0				
4. बाजना	142.0				
5. पिपलौदा	137.0				
6. रतलाम	209.6				
7. ताल	..				
8. रावटी	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	28.0				
2. महिदपुर	58.0				
3. तराना	56.0				
4. घटिया	53.0				
5. उज्जैन	53.0				
6. बड़नगर	45.0				
7. नागदा	42.0				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	8.0				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	3.0				
6. शाजापुर	14.0				
7. शुजालपुर	63.0				
8. कालापीपल	52.0				
9. गुलाना	20.0				



1	2	3	4	5	6
<b>*जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	6.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	4.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	39.1				
4. झाबुआ	4.6				
5. राणापुर	12.0				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जोवट	1.2		4.(1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. अलीराजपुर	..		सोयाबीन, उड़द, कपास अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सोण्डवा	..				
5. चन्द्रशेखर- आजाद नगर	3.5				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	29.4		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	8.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	43.6				
4. कुक्षी	9.8				
5. मनावर	23.0				
6. धरमपुरी	12.0				
7. गंधवानी	6.0				
8. डही	17.0				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>*जिला प. निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वाह	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सनावद	..		(2) ..		
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगौन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	2.0				
2. ठीकरी	25.0				
3. राजपुर	14.0				
4. सेंधवा	35.0				
5. पानसेमल	31.0				
6. पाटी	2.0				
7. निवाली	17.0				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
<b>जिला पूर्वे-निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	41.60				
2. खकनार	89.2				
3. नेपानगर	53.0				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	4.0				
2. सिरोज	9.0				
3. कुरवाई	17.0				
4. बासौदा	60.2				
5. नटेरन	50.0				
6. विदिशा	108.6				
7. ग्यारसपुर	97.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, धान, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	105.5				
2. हुजूर	335.0				
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	338.6				
2. आष्टा	191.0				
3. इछावर	391.0				
4. नसरुल्लागंज	300.0				
5. बुधनी	235.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी एवं धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	110.2				
2. गैरतगंज	65.4				
3. बेगमगंज	95.4				
4. बाड़ी	164.0				
5. गोहरगंज	113.0				
6. बरेली	124.4				
7. सिलवानी	126.0				
8. उदयपुरा	154.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	149.9				
2. घोड़ाडोंगरी	334.3				
3. शाहपुर	148.8				
4. चिचोली	204.6				
5. बैतूल	95.4				
6. मुलताई	56.3				
7. आठनेर	150.0				
8. आमला	76.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूँग मोठ सुधरी. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	60.6				
2. होशंगाबाद	128.2				
3. बाबई	71.0				
4. इटारसी	79.4				
5. सोहागपुर	84.0				
6. पिपरिया	178.6				
7. वनखेड़ी	242.7				
8. पचमढी	187.6				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	202.4				
2. पाटन	268.4				
3. मझौली	159.5				
4. जबलपुर	208.7				
4. कुण्डम	139.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	93.0				
2. रीठी	73.0				
3. विजयराघवगढ़	80.0				
4. बहोरीबंद	213.4				
5. दीमरखेड़ा	140.0				
6. बरही	48.0				
7. बड़वारा	88.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	76.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	117.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	191.1				
4. मण्डला	147.8				
5. घुघरी	79.8				
6. नारायणगंज	117.7				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. मक्का, धान, सोयाबीन, राहर की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	101.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	136.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	87.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	116.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	141.4				
4. जामई (तामिया)	118.7				
5. सोंसर	78.4				
6. पांडुर्णा	155.0				
7. अमरवाड़ा	148.8				
8. चौरई	166.9				
9. बिछुआ	131.8				
10. मोहखेड़ा	83.8				
11. हरई	250.6				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	116.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, केन्दो कुटकी, तुवर, उड़द, मूंग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	169.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	108.3				
4. बरघाट	167.7				
5. कुरई	103.0				
6. घंसौर	176.0				
7. धनोरा	174.0				
8. छपारा	119.5				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	124.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	160.0				
4. वारासिवनी	42.8				
5. कटंगी	85.8				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला अशोकनगर, सतना, रीवा, देवास, प. निमाड़, राजगढ़ व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(511)